



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 30]

नई दिल्ली, जुलाई 30—अगस्त 5, 2017, शनिवार/श्रावण 8— श्रावण 14, 1939

No. 30]

NEW DELHI, JULY 30—AUGUST 5, 2017, SATURDAY/SRAVANA 8— SRAVANA 14, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2017

**सा.का.नि. 246.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना नक्शानवीस श्रेणी II, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना में नक्शानवीस श्रेणी - II के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्,—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, फरक्का बैराज परियोजना, नक्शानवीस श्रेणी - 2 समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं !

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिये जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

| पद का नाम            | पद संख्या   | वर्गीकरण   | वेतन मैट्रिक्स में स्तर         |
|----------------------|---|--|---------------------------------|
| (1)                  | (2)   | (3)  | (4)                             |
| नक्शानवीस श्रेणी -II | 7 * (2017)<br>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-‘ग’<br>अराजपत्रित, अननुसचिवीय। | स्तर - 4<br>(25,500–81,100 रु.) |

| चयन या अपचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा   | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं   |
|-----------------|---|---|
| (5)             | (6)   | (7)   |
| लागू नहीं होता। | 18 से 27 वर्ष के बीच<br><br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिलकरके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)<br><br><b>टिप्पण-1 :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू – कश्मीर राज्य के | 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, और<br><br>2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था या बोर्ड से नक्शानवीस ( सिविल या यांत्रिक ) में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण – पत्र का डिप्लोमा जिसकी अवधि दो वर्ष से कम न हो। |

|   |  |
|---|--|
| लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार दीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)                                   |  |
| <b>टिप्पण- 2 :</b> रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में, आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |  |

|  |                                |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | <b>भर्ती की पद्धति भर्ती :</b> सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन विभिन्न पद्धति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। |
| (8)  | (9)                            | (10)   | (11)   |
| लागू नहीं होता   | दो वर्ष                        | सीधी भर्ती   | लागू नहीं होता   |

|   |   |
|---|---|
| यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो इसका संरचना  | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (12)  | (13)  |
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—<br><br>1. अधीक्षण अभियंता, फरक्का बैराज परियोजना — अध्यक्ष<br>2. कार्यपालक अभियंता, फरक्का बैराज परियोजना - सदस्य<br>3. अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय — सदस्य | लागू नहीं होता।   |

[फा. सं. ए. 12018/15/2017-स्था.-III अनुभाग]

अनिल कुमार वाही, अवर सचिव

**MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION**

New Delhi, the 28th July, 2017

**G.S.R. 246.**—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Farakka Barrage Project, Draftsman Grade II, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Draftsman Grade II in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, namely:—

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Farakka Barrage Project, Draftsman Grade II, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

| Name of the post     | Number of post  | Classification   | Level in pay matrix                                |
|----------------------|---|--|--|
| (1)                  | (2)   | (3)  | (4)  |
| Draftsman Grade – II | 7*<br>(2017) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group-‘C’, Non-Gazetted, Non – Ministerial. | Level – 4 (Rs. 25,500–81,100/-) in the pay matrix. |

| Whether selection post or non-selection post. | Age -limit for direct recruits.   | Educational and other qualifications required for direct recruits   |
|---|---|---|
| (5)   | (6)   | (7)   |
| Not applicable                                | <p>Between 18 and 27 years.</p> <p>(Relaxable for Government Servants up to 40 years’ in case of general candidates and up to 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to times).</p> <p><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p><b>Note 2 :</b> In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p> | <p>(1) Matriculation or equivalent from a recognised Board or Institution; and</p> <p>(2) Diploma in National Trade Certificate in Draftsmanship (Civil or Mechanical) of not less than two years’ duration from a recognised Institution or Board.</p> |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees. | Period of probation, if any. | <b>Method of recruitment :</b> whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made. |
|--|------------------------------|---|--|
| (8)  | (9)                          | (10)  | (11)   |
| Not applicable   | Two years                    | Direct recruitment  | Not applicable   |

| If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.   | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|--|--|
| (12)   | (13)   |
| <b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consists of :—</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Superintending Engineer, Farakka Barrage Project —Chairman</li> <li>2. Executive Engineer, Farakka Barrage Project — Member</li> <li>3. Under Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation - Member</li> </ol> | Not applicable.  |

[F. No. A. 12018/15/2017-E.III Section]

ANIL KUMAR WAHI, Under Secy.